

Food Menu (February-2025)

Day/Date	Food Item
Saturday, 1 February, 2025	Broccoli veg. with paratha and salad. ब्रोकोली की सब्जी पराठा और सलाद।
Tuesday, 4 February, 2025	Capsicum veg. with chapati and salad. शिमला मिर्च की सब्जी, रोटी और सलाद।
Wednesday, 5 February, 2025	Fried rice with one sweet. फ्राइड राइस के साथ एक मिठाई।
Thursday, 6 February, 2025	Mix veg. with chapati and salad. मिक्स सब्जी रोटी और सलाद।
Friday, 7 February, 2025	Your favorite food. आपका पसंदीदा भोजन।
Saturday, 8 February, 2025	Green vegetable with chapati and salad. हरी सब्जी रोटी और सलाद।
Monday, 10 February, 2025	Cottage paratha and chutney. पनीर का पराठा और चटनी।
Tuesday, 11 February, 2025	Idli with sambhar and one sweet. इडली, सांभर और एक मिठाई।
Wednesday, 12 February, 2025	Spinach veg. with chapati and salad. पालक का साग रोटी और सलाद।
Thursday, 13 February, 2025	Cauliflower veg. with paratha and salad. फूलगोभी की सब्जी, पराठा और सलाद।
Friday, 14 February, 2025	Your favorite food. आपका पसंदीदा भोजन।
Monday, 17 February, 2025	Chhola puri with gajar halwa. छोला पूरी और गाजर का हलवा।
Tuesday, 18 February, 2025	Potato and pea veg. with chapati and salad. आलू और मटर की सब्जी, रोटी और सलाद।
Wednesday, 19 February, 2025	Sandwich and one sweet. सैंडविच और एक मिठाई।
Thursday, 20 February, 2025	Bean vegetable with chapati and salad. सेम की सब्जी रोटी और सलाद।
Friday, 21 February, 2025	Your favorite food. आपका पसंदीदा भोजन।
Monday, 24 February, 2025	Pea paratha with chutney. मटर का पराठा और चटनी।
Tuesday, 25 February, 2025	Mushroom veg. with chapati and salad. मशरूम की सब्जी, रोटी और सलाद।
Thursday, 27 February, 2025	Beetroot Paratha with chutney. चुकंदर का पराठा और चटनी।
Friday, 28 February, 2025	Your favorite food. आपका पसंदीदा भोजन।

Note - Kindly Send one fruit daily for fruit break.

कृपया फ्रूट ब्रेक के लिए प्रतिदिन एक फल भेजने का कष्ट करें।